

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
(राजभाषा अनुभाग)

दिनांक - 19.04.2018

विषय - इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली में अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य हेतु दर-सूची आमंत्रित करने संबंधी ।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त न्यास) प्रशासनिक पुस्तकों, सदंभ सामग्रियों, वार्षिक रिपोर्ट, ब्रोशर, शैक्षणिक कार्यों इत्यादि का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद व हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद एवं टाइपिंग कार्य कराने हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत् /सेवानिवृत्त/गैर सरकारी संस्थाओं में राजभाषा से जुड़े ऐसे अनुभवी अधिकारियों और संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो कि उपर्युक्त सामग्री का हिन्दी अनुवाद कार्य कर सकें। अनुवाद कार्य की शर्तें निम्न प्रकार से होंगी ।

1. अनुवाद का कार्य गुणवत्ता युक्त एवं वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए ।
2. अनुवाद कार्य को यूनिकोड फॉन्ट अथवा माँगे गए फॉन्ट में टाइप करना अनिवार्य होगा ।
3. कार्य की गुणवत्ता संतोष जनक पाए जाने पर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. कार्य पूरा होने पर किए गए कार्य की एक सीडी भी उपलब्ध करानी होगी अथवा ई-मेल करना होगा ।
5. भुगतान राशि प्रति पृष्ठ के हिसाब से दी जाएगी तथा दूसरे पृष्ठ पर दो या तीन लाइन आ जाने पर उसे अलग पृष्ठ नहीं गिना जाएगा ।
6. पृष्ठों की गिनती बढ़ाने के लिए बड़े फॉन्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा केवल उचित फॉन्ट साइज का ही प्रयोग किया जाएगा केवल आवश्यक स्थान पर ही माँगे गए फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा । ऐसा न करने पर पृष्ठों की संख्या कम करके ही राशि का भुगतान किया जाएगा ।

इच्छुक व्यक्ति/ अनुवाद कार्य से जुड़ी संस्थाएँ अपनी दर-सूची प्रति पृष्ठ की दर से उपर्युक्त शर्तों के अनुसार दिनांक 01.05.2018 को सायं 4.00 बजे तक निदेशक (प्रशासन) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, सीवीमैस, जनपथ, नई दिल्ली-110001 को मोहर बंद लिफाफे में भेज सकते हैं । लिफाफे के ऊपर लिखा होना चाहिए कि “हिन्दी अनुवाद कार्य हेतु प्रस्ताव” ।

(विद्या प्रसाद मिश्र)
राजभाषा अधिकारी
इं.गा.रा.क.केन्द्र